



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)
प्रतिभारक से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 1983/चैत्र 21, 1905
No. 174] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 1983/CHAITRA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1983

का० आ० 286(अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कागज (उत्पादन का विनियमन) संशोधन आदेश, 1983 है।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा।

2. कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 2 में,—

(i) उपखंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ज) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपखंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ड) “लेखन और छपाई कागज” से वह सामग्री अभिप्रेत है जो सामान्यतः लेखन और छपाई कागज के रूप में जानी जाती है और जिसमें कागज की वे सभी किस्में हैं, जो

मुख्य रूप से छपाई और/या लेखन के लिए विनिर्मित की जाती है किन्तु इस के अन्तर्गत अख्तयारी कागज नहीं है;”

3. उक्त आदेश के खंड 3 और 4 के लिए निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्

“3. कागज के उत्पादन का विनियमन—(1) प्रत्येक विनिर्माता कागज (उत्पादन का विनियमन) संशोधन आदेश, 1983 के प्रारंभ की तारीख की ओर से प्रारंभ होने वाली प्रत्येक तिमाही में नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट के अनुसार उसके उत्पादन के परिमाण के आधार पर सफेद लेखन कागज का विनिर्माण करेगा, अर्थात् :—

सारणी

विनिर्माता की क्षमता	सफेद छपाई कागज के उत्पादन का परिमाण
1	2
जहाँ कागज और कागज के गत्ते का विनिर्माण करने की कुल क्षमता के प्रतिनिर्देश से लेखन और छपाई कागज का विनिर्माण करने की क्षमता की प्रतिशतता निम्नलिखित है—	कागज और कागज के गत्ते के कुल उत्पादन के प्रति निर्देश से सफेद छपाई कागज के उत्पादन की प्रतिशतता निम्नलिखित होगी :—
50 प्रतिशत से अधिक नहीं	20 प्रतिशत
50 प्रतिशत से अधिक	25 प्रतिशत

(2) उपखंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, कागज (उत्पादन का विनियमन) संशोधन आदेश, 1983 के प्रारंभ को और से ऐसा विनिर्माता है, जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता (नई यूनिट या यूनिट के सारवान विस्तार के रूप में) —

(i) 1-1-1976 को या उसके पश्चात् चालू की गई है किन्तु ऐसे चालू करने की तारीख से 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, या

(ii) कागज (उत्पादन का विनियमन) संशोधन आदेश, 1983 के प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् चालू की जानी है,

अपेक्षा की जाएगी कि वह उपखंड (1) की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट लेखन और छपाई कागज के उत्पादन की प्रतिशतता के अधीन रहते हुए स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कागज और कागज के गत्ते के कुल उत्पादन के प्रतिनिर्देश से पहले वर्ष में 5 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 10 प्रतिशत, तीसरे वर्ष में 15 प्रतिशत, चौथे वर्ष में 20 प्रतिशत और पांचवें वर्ष या पश्चात् वर्षों में 25 प्रतिशत के परिमाण तक सफेद छपाई कागज का उत्पादन करे।

4. विनिर्माण की क्षमता के अवधारण की रीति :

खंड 3 के उपखंड (1) में निविष्ट लेखन और छपाई कागज के विनिर्माण की क्षमता और कागज और कागज के गत्ते के विनिर्माण की क्षमता का अवधारण, इस आदेश और ऐसी अन्य जानकारी, यदि कोई हो, जिसकी विनिर्माता से इस निमित्त देने की अपेक्षा की जाए, विनिर्माता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

4. उक्त आदेश के खंड 10 में,—

(i) उपखंड (क) में, “प्रतिवर्ष 10,000 टन से कम है” शब्द और अंकों के स्थान पर “प्रतिवर्ष 16,500 टन से अधिक नहीं है” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा।

[सं० 12(31)/81-कागज]

टिप्पण:

मूल आदेश अधिसूचना सं० का०भा० 169(अ) तारीख 18 मार्च, 1978 को प्रकाशित किया गया था।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

(1) अधिसूचना सं० सा०का० 583(अ) तारीख 16 अक्टूबर, 1979।

(2) अधिसूचना सं० का०भा० 787(अ) तारीख 9 नवम्बर, 1982।

MINISTRY OF INDUSTRY (Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 11th April, 1983

S.O. 286(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Regulation of Production) Amendment Order, 1983.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Paper (Regulation of Production) Order, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2,—

(i) sub-clauses (a), (b), (c), (f) and (h) shall be omitted;

(ii) after sub-clause (1), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

(m) “writing and printing paper” means, the material commonly known as writing and printing paper and includes all varieties of papers which are primarily manufactured for printing and/or writing, but does not include newsprint.”

3. For clauses 3 and 4 of the said Order, the following clause shall be substituted, namely :—

“3. Regulation of Production of Paper. (1) Every manufacturer shall manufacture in respect of every quarter commencing on and from the date of commencement of the Paper (Regulation of Production) Amendment Order, 1983, white printing paper on the basis of the extent of production thereof as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Capacity of manufacturer	Extent of production of white printing paper
(1)	(2)
Where percentage of capacity to manufacture writing and printing paper with reference to the total capacity to manufacture paper and paper boards is—	Percentage of production of white printing paper with reference to the total production of paper and paper boards shall be—
not more than 50 per cent	20 per cent;
more than 50 per cent	25 per cent;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1) on and from the commencement of the Paper (Regulation of Production) Amendment Order, 1983, a manufacturer whose installed capacity (by way of new unit or substantial expansion)—

(i) has been commissioned on or after 1-1-1976, but has not completed 5 years from the date of such commissioning, or

(ii) is to be commissioned on or after the date of commencement of the Paper (Regulation of Production) Amendment Order, 1983,

shall be required to produce white printing paper to the extent of 5 per cent in the first year, 10 per cent in the second year, 15 per cent in the third year, 20 per cent in the fourth year and 25 per cent in the fifth or subsequent years with reference to the total production of paper and paper boards specified in column (2) subject to the percentage of production of writing and printing paper as specified in column (1) of the Table to sub-clause (1).

4. Manner of determining the capacity to manufacture: The capacity to manufacture writing and printing paper and capacity to manufacture paper and paper boards referred to in sub-clause (1) of clause 3 shall be determined on the basis of information furnished by the manufacturer under this Order and such other information, if any, as the manufacturer may be required to furnish in this behalf.”

4. In clause 10 of the said Order,—

(i) in sub-clause (a), for the words and figures “is less than 10,000 tonnes per annum”, the words and figure “is not more than 16,500 tonnes per annum” shall be substituted;

(ii) sub-clauses (b) and (c) shall be omitted.

[No. 12(31)/81-Paper]

NOTE

Principal Order published *vide* Notification No. S.O. 169(E), dated the 8th March, 1978.

Subsequently amended by :—

- (1) Notification No. S.O. 583(E) dated the 16th October, 1979.
- (2) Notification No. S.O. 787(E) dated the 9th November, 1982.

कां०आ० 287(अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कागज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1983 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 2 के उपखंड (ख) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त आदेश के खंड 3 में, "और क्रीम लेब या बोव कागज" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. उक्त आदेश के खंड 4 में, "और क्रीम लेब या बोव कागज" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त आदेश के खंड 5 में, जहां दो स्थानों पर "और क्रीम लेब या बोव कागज" शब्द आते हैं उनका लोप किया जाएगा।

6. उक्त आदेश के खंड 6 में, "4200.00 रु० (केवल चार हजार दो सौ रुपये)" अंकों, अक्षरों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "5400.00 रु० (केवल पांच हजार चार सौ रुपये)" अंक, अक्षर, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त आदेश के खंड 6 में,—

(i) उपखंड (क) में, "प्रतिवर्ष 10,000 टन से कम है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रतिवर्ष 16500 टन से अधिक नहीं है" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा।

[कां०सं० 12(31)/81-कागज]

भार० के० मार्ग०, संयुक्त सचिव

टिप्पण

मूल आदेश, अधिसूचना सं० कां०आ० 376(अ), तारीख 30 जून, 1979 द्वारा प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

1. अधिसूचना सं० कां०आ० 582(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 1979

2. अधिसूचना सं० कां०आ० 928(अ), तारीख 29 नवम्बर, 1979

3. अधिसूचना सं० कां०आ० 910(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 1979।

S.O. 287(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paper (Control) Order, 1979, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Control) Amendment Order, 1983.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Paper (Control) Order 1979 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2, sub-clause (b) shall be omitted.

3. In clause 3 of the said Order, the words "and cream laid or wove paper" shall be omitted.

4. In clause of the said Order, the words "and cream laid or wove paper or any such varieties of paper" shall be omitted.

5. In clause 5 of the said Order, the words "and cream laid or wove paper" occurring at two places shall be omitted.

6. In clause 6 of the said Order, for the letters, figures, brackets and words "Rs. 4200.00 (Rupees four thousand two hundred only), the letters, figures, brackets and words "Rs. 5400.00 (Rupees five thousand four hundred only)" shall be substituted.

7. In clause 6-A of the said Order—

(i) in sub-clause (a), for the words and figures "is less than 10,000 tonnes per annum", the words and figures "is not more than 16,500 tonnes per annum" shall be substituted;

(ii) sub-clauses (b) and (c) shall be omitted.

[File No. 12(31)81-Paper]

R.K. BHARGAVA, Jt. Secy.

NOTE

Principal order published *vide* notification No. S.O. 376(E) dated the 30th June, 1979.

Subsequently amended by :—

1. Notification No. S.O. 582(E), dated the 16th October, 1979.

2. Notification No. S.O. 928(E), dated the 29th November, 1979.

3. Notification No. S.O. 910(E), dated the 24th December 1979.

